



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15--अप्रैल 21, 2006 (चैत्र 25, 1928)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15--APRIL 21, 2006 (CHAITRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of
Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2006

सं. 192, दिनांक 16 मार्च 2006--राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नफरी में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री राज कुमार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 2006 के का.जा. संख्या 21/24/2005-सी एस-1 के संदर्भ में 24.2.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

वी. सरस्वती
उप सचिव

सं. 193, दिनांक 16 मार्च 2006--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड सी ई: 86) की अधिकारी सुश्री संगीता शर्मा का वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 23 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से 22 फरवरी, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी. पी. केरकेटा
अवर सचिव

सं. 194, दिनांक 21 मार्च 2006--अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान शविन्दर (एमएस-14788एन), आयोग की तिथि, 4 मार्च 2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 4 मार्च 2001 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान बिराज गोगई (एमएस-14787एल), डीओसी, 17 फरवरी 2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 फरवरी 2001 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान आनंद गुप्ता (एमएस-14691एच), डीओसी, 9 दिसम्बर 2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 फरवरी 2000 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान धन्वजय टुडू (एमएस-14525पी), डीओसी, 17 फरवरी 2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 फरवरी 2000 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान सुदीप चौधरी (एमएस-14492पी), डीओसी, 19 दिसम्बर 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 1999 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान हरभजन सिंह नाधी (एमएस-14408के), आयोग तिथि, 27 मार्च 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2001 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता 6 (छः) महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान विवेक कुमार तिवारी (एमएस-14534डब्ल्यू), आयोग की तिथि, 24 फरवरी 2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 24 अगस्त 2002 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता 6 (छः) महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान मनीष कुमार (एमएस-14489पी), आयोग की तिथि, 19 दिसम्बर 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 जून 1999 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति एवं स्नातकोत्तर मास्टर आफ सर्जरी के लिए 42 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान साजल नाग (एमएस-13462एल), डीओसी, 20 फरवरी 1999 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 अगस्त 1998 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 6 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान राजदीप सिंह (एमएस-14113एन), एएमसी, 22 दिसम्बर 2000

कप्तान राजीव के (एमएस-14198पी), एएमसी, 24 जनवरी 2001

कप्तान यासीन अंसारी (एमएस-14204एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2001

कप्तान रिमिल हेरेंज (एमएस-14205ए), एएमसी, 05 फरवरी 2001

कप्तान अभय कुमार (एमएस-14588एक्स), एएमसी, 20 मार्च 2003

कप्तान अर्जुन एम एन (एमएस-14621के), एएमसी, 07 अप्रैल 2003

कप्तान राजीव शर्मा (एमएस-14745वाई), एएमसी, 01 दिसम्बर 2003

कप्तान अविनाश कुमार (एमएस-14884एच), एएमसी, 24 सितम्बर 2004

कप्तान शालिनी गुप्ता (एमएस-14305एल), एएमसी, 25 फरवरी 2002

कप्तान यार्थ प्रीतम सिंगहा (एमएस-14430पी), एएमसी, 05 फरवरी 2002

कप्तान परमेश्वर कुमार (एमएस-14686एक्स), एएमसी, 08 दिसम्बर 2003

कप्तान गुरपाल गिल (एमएस-14896एक्स), एएमसी, 29 अक्टूबर 2004

कप्तान प्रणव शंकर (एमएस-14897ए), एएमसी, 04 दिसम्बर 2004

कप्तान अशिम रॉय (एमएस-14202एम), एएमसी, 31 जनवरी 2001

कप्तान परमवीर सिंह सोनी (एमएस-14347एक्स), एएमसी, 29 जनवरी 2002

कप्तान कुन्दन कुमार (एमएस-14548डब्ल्यू), एएमसी, 17 फरवरी 2003

कप्तान पोरन ज्योति बोरपुजारी (एमएस-14581डब्ल्यू), एएमसी, 15 मार्च 2003

कप्तान राजेश गिरधर (एमएस-14762वाई), एएमसी, 17 फरवरी 2004

कप्तान आरती सावनी (एमएस-14789डब्ल्यू), एएमसी, 04 मार्च 2004

कप्तान कुरूमापु गौरी प्रसाद (एमएस-14900पी), एएमसी, 17 फरवरी 2004

कप्तान सिमरनजीत कौर (एमएस-14902ए), एएमसी, 4 दिसम्बर 2004

कप्तान ममता अशोक मिश्रा (एमएस-14910वाई), एएमसी, 10 जनवरी 2005

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

लेफ्टि. निमित्त सोलंकी (एमएस-14859के), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

लेफ्टि शशिकान्त (एमएस-14862के), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि ऋषि शर्मा (एमएस-14864पी), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि देवेन्द्र सिंह (एमएस-14865एक्स), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि अभिषेक भट्टाचार्याजी (एमएस-14868एल), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

लेफ्टि रवि (एमएस-14871एल), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि सत्याकि मुखर्जी (एमएस-14876के), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि मोहम्मद तारीख (एमएस-14877एम), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि स्वीन बांगर (एमएस-14878पी), एएमसी, 22 सितम्बर 2004
 लेफ्टि जितेन्द्र कुमार सिंह (एमएस-14879एक्स), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

सर्जन लेफ्टि./प्ला. लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि. लाल न्यून लूंगा (एमएस-14196एल/75741एन), आयोग की तिथि, 19 जनवरी 2001 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 जुलाई 2000 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 6 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

सर्जन लेफ्टि. बिपुलानन्दा राजमोहन (एमएस-14284ए/75782एफ), आयोग की तिथि, 21 जनवरी 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 जुलाई 2001 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 6 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

सर्जन लेफ्टि. निर्मल प्रसाद दास (एमएस-14186ए/75729के), एएमसी, 30 दिसम्बर 2000

सर्जन लेफ्टि. स्मितारानी नायक (एमएस-14893के/75862एन), एएमसी, 05 अक्टूबर 2004

सर्जन लेफ्टि. मनजीत कौर (एमएस-14903एच/75865डब्ल्यू), एएमसी, 04 दिसम्बर 2004

सर्जन लेफ्टि. अक्षय कुमार नायक (एमएस-14909के/75866वाई), एएमसी, 10 दिसम्बर 2004

सर्जन लेफ्टि. के पद पर

सर्जन लेफ्टि. नीलोत्पल मित्रा (एमएस-14194वाई/75737बी), डीओसी, 12 जनवरी 2001 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 जुलाई 2000 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 6 महीने

पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

प्लाईंग ऑफिसर के पद पर (परख पर)

प्ला. ऑफिसर राहुल (एमएस-14858एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

प्ला. ऑफिसर अजय कुमार (एमएस-14863एम), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

प्ला. ऑफिसर अमित कुमार (एमएस-14869एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

प्ला. ऑफिसर मनोज गोयल (एमएस-14870एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस(पर्स)

थल सेना विभाग

सं. 195, दिनांक 17 मार्च 2006.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर फते सिंह नेगी (जेसी-172581एन), पहले गढ़वाल राईफल्स 11 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर लाल सिंह (जेसी-212978एल), पहले जैक राईफल्स 04 दिसम्बर 2004

सूबेदार मेजर वीरेन्द्र सिंह (जेसी-192932वाई), पहले राजपूत रेजीमेन्ट 05 दिसम्बर 2004

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-194625ए), पहले गढ़वाल राईफल्स 10 जुलाई 2004

सूबेदार मनवर सिंह (जेसी-528212के), पहले गढ़वाल राईफल्स 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार बिशन सिंह बिष्ट (जेसी-204147एक्स), पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार तुलसा सिंह (जेसी-478344वाई), पहले राजपूत रेजीमेन्ट 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-160038एच), पहले ए डी आर्टि,
02 अक्टूबर 2004

सूबेदार त्रिलोक सिंह रावत (जेसी-528471एम), पहले गढ़वाल
राईफलस, 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार दामोदरन प्रयानकोट वीटिल (जेसी-193245पी), पहले ए एस
सी (सप्लै), 03 अक्टूबर 2004

सूबेदार सुभाष डढ़वाल (जेसी-412061एक्स), पहले पैरा रेजीमेन्ट,
04 दिसम्बर 2004

सूबेदार रोशन दीन (जेसी-478685के), पहले राजपूत रेजीमेन्ट,
04 दिसम्बर 2004

सूबेदार सतीश कुमार मल्ल (जेसी-629254एक्स), पहले 9 जी आर,
04 दिसम्बर 2004

सूबेदार शिवा कुमार नायर वी (जेसी-438080ए), पहले मद्रास
रेजीमेन्ट, 05 दिसम्बर 2004

सूबेदार जगतम्बा प्रसाद शर्मा (जेसी-518549वाई), पहले डोगरा
रेजीमेन्ट, 05 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार तेजेन्द्र बहादुर जी सी (जेसी-260407के), पहले
आर्टिलरी, 01 मई 2004

नायब सूबेदार रवि शेर सिंह (जेसी-841637ए), पहले भारतीय नौसेना,
01 मई 2004

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-578617एल), पहले जैक राईफलस,
12 जुलाई 2004

नायब सूबेदार विद्या रतन (जेसी-592043पी), पहले जैक लाईट इन्फैन्ट्री,
02 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार आलम शेर (जेसी-183409एम), पहले ग्रेनेडियर्स,
02 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार बरमा नन्द (जेसी-237008एन), पहले आर्मड कोर,
02 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार कालिदास ठाकुर (जेसी-262773एम), पहले आर्टिलरी,
04 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जेसी-173217एफ), पहले सिख लाईट
इन्फैन्ट्री, 04 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जगदीश राज (जेसी-548293डब्ल्यू), पहले आसाम
रेजीमेन्ट, 05 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार हरिश कुमार डोगरा (जेसी-412638एम), पहले पैरासूट
रेजीमेन्ट, 05 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-192399पी), पहले राज राईफलस,
05 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-518285एच), पहले डोग्रा रेजीमेन्ट,
05 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-518320ए), पहले डोगरा रेजीमेन्ट,
05 दिसम्बर 2004

टी.के.एम. पिल्लै, अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 196, दिनांक 21 मार्च 2006.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों को परख अवधि पूरा होने पर पक्का करते हैं :-

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

एनटी आर-16685-एम लेफ्टि. जसबिन्दर सिंह, 04 अप्रैल 2001

एनटी आर-16690-वाई लेफ्टि. महिपाल, 27 अप्रैल 2002

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

एनटी एल-17474-एक्स लेफ्टि. प्रसन्न पिल्लै बी, 24 अप्रैल 2002

एनटी एल-17473-पी लेफ्टि. लकपा यलमु, 24 अप्रैल 2002

एनटी एल-17463-एल लेफ्टि. अण्णप्पा नारायण सेठ, 24 अप्रैल 2002

एनटी एल-17481-एन लेफ्टि. ओम प्रकाश नयन, 26 अप्रैल 2002

एनटी एल-17483-वाई लेफ्टि. गोकर्ण सिंह, 19 मई 2003

सेना चिकित्सा सेवा

एनटी एल-17489-ए लेफ्टि. ओम प्रकाश बिश्नोई, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17492-ए लेफ्टि. प्रविण सिंह, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17500-एन लेफ्टि. मुरली दास आर, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17490-पी लेफ्टि. राकेश कुमार, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17498-के लेफ्टि. श्री मनोज कुमार अग्निहोत्री, 02 अप्रैल
2004

एनटी एल-17488-एक्स लेफ्टि. हरप्रीत सिंह, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17494-एल लेफ्टि. रविंदर कुमार शर्मा, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17487-पी लेफ्टि. जयकिशन एम, 02 अप्रैल 2004

एनटी एल-17497-वाई लेफ्टि. सुनिल चौहान, 02 अप्रैल 2004

राजेश कामरान

त्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

थल सेना विभाग

सं. 197, दिनांक 17 मार्च 2006.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

पायनियर कोर

सूबेदार मेजर (जी डी/क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार जी डी राम धारी (जेसी-198866एक्स), 01 मई 2005

सूबेदार जी डी दुर्गा दत्त (जेसी-211830ए), 01 जून 2005

सूबेदार क्लर्क बजरंगी प्रसाद मिश्रा (जेसी-214492वाई), 07 जून 2005*

*(वरिष्ठता 01 जून 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी/एस डी)

हवलदार अवधेश सिंह यादव (सं. 6378021एम अब जेसी-663734एन), 21 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सतवीर सिंह चौहान (सं. 6377958एल अब जेसी-663735डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम चन्दर (सं. 6378071के अब जेसी-663736वाई), 25 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तपन कुमार गागुली (सं. 6378086के अब जेसी-663737एफ), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार अर्जुन लाल (सं. 6378089एन अब जेसी-663738के), 20 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 6378091एल अब जेसी-663739एम), 05 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 6378093डब्ल्यू अब जेसी-663740एफ), 22 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश कुमार भारती (सं. 6378106एच अब जेसी-663741के), 30 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 6378111एन अब जेसी-663742एम), 26 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मन सिंह खरायत (सं. 6378127वाई अब जेसी-663743पी), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रवीन्द्र सिंह भाटी (सं. 6378143डब्ल्यू अब जेसी-663744एक्स), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रकाश कुमार दास (सं. 6378174डब्ल्यू अब जेसी-663745ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार जय कुमार सिंह (सं. 6378175वाई अब जेसी-663746एच), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ओमप्रकाश (सं. 6378165पी अब जेसी-663747एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार ब्रजपाल सिंह (सं. 6378185एच अब जेसी-663748एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार ध्रुव सिंह (सं. 6378188डब्ल्यू अब जेसी-663749डब्ल्यू), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सन्जय कुमार गुप्ता (सं. 6378202एक्स अब जेसी-663750एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार रन्जीत कुमार दास (सं. 6378242वाई अब जेसी-663751एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार नरेन्द्र कुमार पान्डा (सं. 6378243एफ अब जेसी-663752डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार जगदीश चन्द (सं. 6378205एल अब जेसी-663753वाई), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश चन्दर (सं. 6378289के अब जेसी-663754एफ),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार अमर सिंह चौहान (सं. 4465637के अब जेसी-663755के),
22 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अरुन कुमार जेना (सं. 14558051एक्स अब जेसी-
663756एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार हंस राज (सं. 14243879ए अब जेसी-663757पी), 01
जनवरी 2006

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 6378817एच अब जेसी-663758एक्स),
01 जनवरी 2006

एस पी शर्मा
अवर सचिव

सं 198, दिनांक 16 मार्च 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मदन लाल (जेसी-172162डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

सूबेदार के पी विजयन (जेसी-133726एक्स), 01 अगस्त 2005

सूबेदार गुरबचन सिंह (टीजे-3122पी), 01 अगस्त 2005

सूबेदार धर्म पाल (जेसी-210091एम), 01 अगस्त 2005

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार भँवर दान (जेसी-840783एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-194620एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार दीवान सिंह (जेसी-412015एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-208018पी), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार निशान सिंह (जेसी-205021के), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार अदेश कुमार (जेसी-478073एम), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार काश्मीर सिंह (जेसी-578502एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार जसमेल सिंह (जेसी-508392डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द जसवाल (जेसी-428654एन), 01 अगस्त
2005

नायब सूबेदार बृज किशोर (जेसी-478336ए), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-478643एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार कावुंगल श्रीधरन राजन (जेसी-368729एन), 01 अगस्त
2005

नायब सूबेदार फतेह सिंह गुर्जर (जेसी-478270पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार रिखी राम (जेसी-548311एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-168824डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सौजन सिंह (जेसी-840670एल), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार वकील सिंह (जेसी-195049एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सरवलिंगम (जेसी-196168डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार इन्द्रजीत मिश्रा (जेसी-558071पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार धर्मपाल (जेसी-224504डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक मान सिंह (जेसी-840855एम), 01 जून 2005

नायब सूबेदार लिपिक हाकम सिंह (जेसी-840854के), 01 अक्टूबर
2005

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार चरनजीत सिंह (जेसी-178987एक्स), 01 फरवरी 2005

सूबेदार शक्ति चन्द (जेसी-201085एक्स), 01 जुलाई 2005

सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-162934पी), 01 जुलाई 2005

सूबेदार गजराज (जेसी-124407के), 01 जुलाई 2005

सूबेदार नडापरम्बिल जोसफ साईमन (जेसी-145034पी), 01 जुलाई
2005

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-155362डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

सूबेदार वली मोहम्मद लोन (जेसी-158447एक्स), 01 जुलाई 2005

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-203856ए), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार घन बहादुर गुरुंग (जेसी-175863एक्स), 01 फरवरी
2005

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जेसी-180784एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार अमर नाथ सिंह (जेसी-840742एच), 01 जून 2005

नायब सूबेदार एम वी सोमन (जेसी-840711के), 01 जून 2005

नायब सूबेदार धमंडी सिंह महुरा (जेसी-840728एक्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार मदन कुमार राय (जेसी-840743एम), 01 जून 2005

नायब सूबेदार हीरा लाल पटेल (जेसी-840705डब्ल्यू), 01 जून 2005

नायब सूबेदार अरुण वामन राव देशपांडे (जेसी-840716एच),
01 जून 2005

नायब सूबेदार आजादवीर सिंह (जेसी-840717एल), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार फौजदार सिंह यादव (जेसी-840706वाई), 01 जून 2005

नायब सूबेदार धीरज सिंह (जेसी-840729ए), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-840719डब्ल्यू), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार दिग्गोवाड़ी सुभाष (जेसी-840723वाई), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार राम फल (जेसी-840733एच), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-840749एन), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-840754वाई), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार समसुद्दीन (जेसी-840737वाई), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-840756के), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार गोरे शंकर ईश्वर (जेसी-840752के), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार रोमेश चन्द (जेसी-840782एल), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार सोमनाथ (जेसी-840800एच), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार अमर पाल सिंह (जेसी-147451ए), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-220298ए), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार बिक्रम सिंह राजावत (जेसी-218247एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार धनी राम (सं. 14512395एक्स अब जेसी-841835एल), 25 जुलाई 2005*

हवलदार राजन एम (सं. 14328967एन अब जेसी-841836एन), 22 सितम्बर 2005*

हवलदार लछूमन तिवारी (सं. 13854216डब्ल्यू अब जेसी-841842एफ), 26 अगस्त 2005*

हवलदार देवसगायम (सं. 1370807पी अब जेसी-841845पी), 25 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)

हवलदार रामजी सिंह (सं. 6903072डब्ल्यू अब जेसी-841855वाई), 12 अगस्त 2005**

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं. 2862166एक्स अब जेसी-841856एफ), 27 जुलाई 2005**

हवलदार दरोगा सिंह (सं. 1447977एफ अब जेसी-841864ए), 13 सितम्बर 2005**

हवलदार अवराचन टी पी (सं. 14313404डब्ल्यू अब जेसी-841865डब्ल्यू), 17 अगस्त 2005**

हवलदार बिरजेश कुमार (सं. 2969743डब्ल्यू अब जेसी-841866एल), 26 सितम्बर 2005**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005)

हवलदार विश्वम्बर नाथ (सं. 14518506ए अब जेसी-841876पी), 24 सितम्बर 2005***

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 1247720एम अब जेसी-841880एक्स), 22 सितम्बर 2005***

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 13732826एनअब जेसी-841881ए), 23 सितम्बर 2005***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक जगदा नन्दा मोहन्ती (सं. 10259051एम अब जेसी-841868डब्ल्यू), 22 जून 2005****

हवलदार लिपिक जितेन्द्र नाथ सिंह (सं. 10259101एम अब जेसी-841869वाई), 26 जुलाई 2005****

**** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005)

हवलदार लिपिक धनंजय प्रसाद (सं. 1457617वाई अब जेसी-841870एन), 01 जुलाई 2005*****

हवलदार लिपिक मिलाप चन्द राणा (सं. 10360915एम अब जेसी-841871डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005)

हवलदार लिपिक हरनाम सिंह (सं. 10465336वाई अब जेसी-841886वाई), 07 सितम्बर 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005)

हवलदार लिपिक एम श्रीकन्टन नायर (सं. 1064020एल अब जेसी-841887एफ), 26 सितम्बर 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005)

हवलदार लिपिक भंवर सिंह (सं. 10301702एफ अब जेसी-841888के), 22 अक्टूबर 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार नागरमल (सं. 10301712एल अब जेसी-841821एल), 02 अगस्त 2005*

हवलदार लचमन सिंह (सं. 10465390एम अब जेसी-841824वाई),
18 अगस्त 2005*

हवलदार एम थंडयुथम् (सं. 10451251एक्स अब जेसी-841825एफ),
10 अगस्त 2005*

हवलदार राम फल (सं. 1253860पी अब जेसी-841827एम),
17 अगस्त 2005*

हवलदार जबर सिंह चौहान (सं. 2967540एन अब जेसी-841828पी), 16 अगस्त 2005*

हवलदार कोमल सिंह (सं. 6462812पी अब जेसी-841831पी),
20 अगस्त 2005*

हवलदार राजधारी दुबे (सं. 13921190एफ अब जेसी-841832एक्स),
04 अगस्त 2005*

हवलदार राम चन्द (सं. 1259403एक्स अब जेसी-841833के),
01 अगस्त 2005*

हवलदार वरिन्दर सिंह (सं. 10479059के अब जेसी-841834एच),
16 अगस्त 2005*

हवलदार भृगुनाथ तिवारी (सं. 14216394एन अब जेसी-841839एफ),
09 अगस्त 2005*

हवलदार पूर्ण बहादुर थापा (सं. 5746289एन अब जेसी-841840डब्ल्यू), 03 अगस्त 2005*

हवलदार बलदेव सिंह गिल (सं. 13732309डब्ल्यू अब जेसी-841841वाई), 22 जुलाई 2005*

हवलदार जसविंदर सिंह (सं. 4453399डब्ल्यू अब जेसी-841843के),
31 अगस्त 2005*

हवलदार हरजी सिंह (सं. 14302451एन अब जेसी-841844एम),
17 अगस्त 2005*

हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 2967749वाई अब जेसी-841846एक्स),
01 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2005)

हवलदार सुरेन्द्रन के (सं. 1259985एच अब जेसी-841852एल),
18 अगस्त 2005**

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 2462600एल अब जेसी-841853एन),
20 अगस्त 2005**

हवलदार गजर सिंह (सं. 10196210एफ अब जेसी-841854डब्ल्यू),
02 अगस्त 2005**

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 10227428एक्स अब जेसी-841857के),
19 सितम्बर 2005**

हवलदार मोहन सिंह छेत्री (सं. 5746432पी अब जेसी-841859पी),
08 अगस्त 2005**

हवलदार पवन कुमार (सं. 3964645एच अब जेसी-841862पी),
12 अगस्त 2005**

हवलदार भवानी लाल (सं. 2861263एच अब जेसी-841867एन),
16 अगस्त 2005**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005)

हवलदार दिलबाघ सिंह (सं. 1258299एच अब जेसी-841872वाई),
08 अगस्त 2005***

हवलदार शंकर सिंह (सं. 5745853एल अब जेसी-841873एफ),
29 जुलाई 2005***

हवलदार इन्द्र पाल सिंह (सं. 4161990ए अब जेसी-841874के),
01 जुलाई 2005***

हवलदार ब्रज भूषण सिंह (सं. 1450684एफ अब जेसी-841875एम),
04 अगस्त 2005***

हवलदार रमेश चन्द (सं. 2465427एक्स अब जेसी-841877एक्स),
02 सितम्बर 2005***

हवलदार शिव प्रसाद (सं. 10196433वाई अब जेसी-841878ए),
01 अगस्त 2005***

हवलदार छैलू राम चौधरी (सं. 1042833एफ अब जेसी-841879एच),
23 जुलाई 2005***

हवलदार कोप सिंह (सं. 6905851एक्स अब जेसी-841884एन),
31 अगस्त 2005***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005)

हवलदार शैख मुसा शैख हसन (सं. 13918380एच अब जेसी-841822एन), 29 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)

हवलदार कुलबिन्दर सिंह (सं. 10478299पी अब जेसी-841892एम),
01 अक्टूबर 2005**

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3373783एन अब जेसी-841894एक्स),
24 नवम्बर 2005**

हवलदार रामेशवर सिंह (सं. 10301496एच अब जेसी-841904डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2005**

हवलदार उत्तम किशान कदम (सं. 10118536एल अब जेसी-841910के), 05 दिसम्बर 2005**

हवलदार हरदेव प्रसाद सिंह (सं. 14516356डब्ल्यू अब जेसी-841912पी), 17 दिसम्बर 2005**

हवलदार सुरंजन सिंह (सं. 1064216वाई अब जेसी-841915एच),
21 दिसम्बर 2005**

हवलदार मोहन शुक्ला (सं. 8824221के अब जेसी-841916एल),
16 दिसम्बर 2005**

हवलदार धीर सिंह (सं. 2967494के अब जेसी-841919वाई), 20 दिसम्बर 2005**

हवलदार राजेश्वर यादव (सं. 10258952एम अब जेसी-841926पी), 15 दिसम्बर 2005**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार अमरा सिंह (सं. 1297868एफ अब जेसी-841932एच), 16 दिसम्बर 2005***

हवलदार कन्नन (सं. 1344147एल अब जेसी-841938के), 16 दिसम्बर 2005***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

हवलदार ए विस्वानाथा पिल्लै (सं. 10326717पी अब जेसी-841943पी), 14 दिसम्बर 2005****

हवलदार धनी राम (सं. 10357511वाई अब जेसी-841944एक्स), 12 दिसम्बर 2005****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार/लिपिक यादो राम (सं. 1057763एल अब जेसी-841889एम), 16 नवम्बर 2005*****

हवलदार/लिपिक शिंगारा सिंह (सं. 3369445वाई अब जेसी-841890एफ), 09 जनवरी 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार/लिपिक खाडे विलास बाबूराव (सं. 14326984पी अब जेसी-841927एक्स), 10 नवम्बर 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2005)

हवलदार/लिपिक अप्पासा खडका भावि (सं. 10419739ए अब जेसी-841928ए), 05 दिसम्बर 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

हवलदार/लिपिक नरेश कुमार सिंह (सं. 1453477ए अब जेसी-841937एफ), 06 दिसम्बर 2005*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005)

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार हाकिम सिंह धांगर (जेसी-165330एफ), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार केदार दत्त डोब्रियाल (जेसी-159246एल), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार भूपाल चन्द (जेसी-171982डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार किशन बहादुर थापा (जेसी-159328एन), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मनोहर सिंह (जेसी-158517एल), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-143537एफ), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-810228एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बद्रि सिंह (जेसी-210648एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी-236487एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार देवि दयाल (जेसी-108421एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-840815एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-840832एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार चन्दर भान (जेसी-840777के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राम सरूप (जेसी-840766एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार भूरि सिंह (जेसी-840779एल), 01 नवम्बर 2005

सेना डाक सेवा कोर

वारंट आफिसर/हवलदार (क्लर्क) से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)

डब्ल्यूओ धिममौजी राव बी जी (सं. 8373564एफ अब जेसी-834537एम), 14 जून 2005@

@ (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) लहरिया कैलाश रघुनंदन (सं. 8430161एच अब जेसी-834538पी), 01 अप्रैल 2005%

% (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

डब्ल्यूओ विनोद (सं. 8373610एल अब जेसी-834539एक्स), 10 अक्टूबर 2005#

(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) वहीद अली खान (सं. 8028024एक्स अब जेसी-834540एम), 10 जून 2005*

हवलदार (क्लर्क) राज किशोर (सं. 8430104एक्स अब जेसी-834541पी), 21 जून 2005*

हवलदार (क्लर्क) ब्रजेश कुमार (सं. 8430256एच अब जेसी-834542एक्स), 11 जून 2005*

*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

डब्ल्यू ओ प्रभाकर सुरेश यादव (सं. 8369915एन अब जेसी-834492एक्स), 22 सितम्बर 2004*

डब्ल्यू ओ दलीप कुमार (सं. 8370513एच अब जेसी-834493ए), 04 दिसम्बर 2004 *

डब्ल्यू ओ देश राज (सं. 8370654एक्स अब जेसी-834494एच), 10 दिसम्बर 2004 *

डब्ल्यू ओ सत्य प्रकाश शुक्ला (सं. 8371587के अब जेसी-834495एल), 20 दिसम्बर 2004 *

डब्ल्यू ओ राम प्रकाश यादव (सं. 8369175के अब जेसी-834496एन), 17 सितम्बर 2004 *

डब्ल्यू ओ के अब्दुल मजीद (सं. 8373693एफ अब जेसी-834497डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) काली राम (सं. 8430817एम अब जेसी-834498वाई), 22 जुलाई 2004@

हवलदार (क्लर्क) सुभाष पाल (सं. 8430807एच अब जेसी-834499एफ), 05 जुलाई 2004@

@(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

डब्ल्यू ओ दलीप सिंह (सं. 8370770ए अब जेसी-834500एल), 29 सितम्बर 2004 **

डब्ल्यू ओ मोहन लाल वर्मा (सं. 8371660एक्स अब जेसी-834501एन), 16 सितम्बर 2004 **

डब्ल्यू ओ सुशील कुमार वर्मा (सं. 8371668के अब जेसी-834502डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2004 **

डब्ल्यू ओ समशेर सिंह सौन (सं. 8371753एम अब जेसी-834503वाई), 08 नवम्बर 2004 **

डब्ल्यू ओ पाटिल पुंडलिक रामू (सं. 8372860ए अब जेसी-834504एफ), 19 नवम्बर 2004 **

**(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) केशव दास (सं. 8430443एफ अब जेसी-834505के), 05 जुलाई 2004#

#(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) धर्मवीर यादव (सं. 8430165वाई अब जेसी-834506एम), 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) महेन्द्र प्रसाद (सं. 8430648डब्ल्यू अब जेसी-834507पी), 09 अगस्त 2004\$

\$(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

डब्ल्यू ओ हर नारायण शर्मा (सं. 8371888एन अब जेसी-834451एन), 20 मई 2004%

%(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) लोहलकर गणेश शांताराम (सं. 8430640के अब जेसी-834452डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार (क्लर्क) जगमोहन राय (सं. 8430644ए अब जेसी-834461एक्स), 02 अप्रैल 2004\$

\$(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) शेख अशरफ अली (सं. 8430650एन अब जेसी-834462ए), 01 मई 2004

हवलदार (क्लर्क) विल्फ्रेड जे (सं. 8430711ए अब जेसी-834463एच), 01 मई 2004

डब्ल्यू ओ मल्लामयल्ली डैनियल (सं. 8370502एम अब जेसी-834464एल), 06 जुलाई 2004 *

डब्ल्यू ओ किशोर कुमार शर्मा (सं. 8370526ए अब जेसी-834465एन), 21 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ सुख राम सिंह (सं. 8370679के अब जेसी-834466डब्ल्यू), 28 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ मूल सिंह (सं. 8371065एन अब जेसी-834467वाई), 05 जुलाई 2004 *

डब्ल्यू ओ परमासिवन ए (सं. 8371087एम अब जेसी-834468एफ), 18 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ कमलेश कुमार (सं. 8371203के अब जेसी-834469के), 30 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ बाल गोविन्द भौर्या (सं. 8371228डब्ल्यू अब जेसी-834470वाई), 18 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ अजय कुमार सिंह (सं. 8371269ए अब जेसी-834471एफ), 06 जुलाई 2004 *

डब्ल्यू ओ हीरा लाल गोहिया (सं. 8371399एच अब जेसी-834472के), 25 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ चन्द्र प्रकाश सिंह (सं. 8371436एल अब जेसी-834473एम), 27 सितम्बर 2004 *

डब्ल्यू ओ प्रमोद नाथ झा (सं. 8371579एल अब जेसी-834474पी), 22 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ अमरेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 8371615एल अब जेसी-834475एक्स), 22 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ मुकेश कपिला (सं. 8371633एन अब जेसी-834476ए),
18 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ एम सदानन्दम (सं. 8371682डब्ल्यू अब जेसी-834477एच),
28 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ अमृत लाल (सं. 8372187के अब जेसी-834478एल),
2 जुलाई 2004 *

डब्ल्यू ओ चिंतामनी (सं. 8369172डब्ल्यू अब जेसी-834479एन),
21 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ सन्तविलास सिंह (सं. 8372550पी अब जेसी-834480एच),
18 अगस्त 2004 *

डब्ल्यू ओ सरबजीत सिंह (सं. 8372722 अब जेसी-834481एल),
24 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ वीरेन्द्र सिंह (सं. 8369349वाई अब जेसी-834482एन),
25 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ राम प्रसाद नेगी (सं. 8373392एक्स अब जेसी-
834483डब्ल्यू), 07 अगस्त 2004 *

डब्ल्यू ओ राजेन्द्र एम घोरपडे (सं. 8373579के अब जेसी-
834484वाई), 18 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ एस पंचमूर्थी (सं. 8373589एन अब जेसी-834485एफ),
28 जून 2004 *

डब्ल्यू ओ मोहिन्द्र लाल (सं. 8373594वाई अब जेसी-834486के),
02 अगस्त 2004 *

डब्ल्यू ओ दल कुमार सुब्बा (सं. 8373691डब्ल्यू अब
जेसी-834487एम), 26 अगस्त 2004 *

डब्ल्यू ओ नागराज देवागुन्डी (सं. 8373800एक्स अब जेसी-
834488पी), 12 जुलाई 2004 *

*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 मई 2004 से दी जायेगी)

डब्ल्यू ओ होशियार सिंह जांगिर (सं. 8371038के अब जेसी-
834489एक्स), 07 जुलाई 2004 **

हवलदार (क्लर्क) सोहराब अली (सं. 8430840ए अब जेसी-
834490एम), 01 जून 2004

हवलदार (क्लर्क) माली शिवा निंगा तमना (सं. 8430525के अब
जेसी-834491पी), 11 जून 2004 **

** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार/लिपिक से सूबेदार/लिपिक (डाक)

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) अखोय कुमार घोष (जेसी-834278पी),
01 जून 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) राम सिंह (जेसी-834292एफ), 01 जून
2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) बाल किशन (जेसी-834293के),
01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) चरन सिंह (जेसी-834294एच),
01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) नारायन सिंह (जेसी-834296एक्स),
03 जुलाई 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) लालजीत सिंह (जेसी-834297ए),
01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) सतपाल सिंह (जेसी-834298एच),
01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) जगदीश प्रसाद जैन (जेसी-834307वाई),
15 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) रामनाथ (जेसी-834310वाई), 15 अप्रैल
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) सावत विष्णु नागु (जेसी-834311एफ),
01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) कुलदीप सिंह (जेसी-834312पी),
01 अक्टूबर 2005

टी. के. एम. पिल्ले
अवर सचिव

सं. 199, दिनांक 21 मार्च 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति
करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

21 जनवरी 2005 से प्रभावी

मेजर रामास्वामी वेलीनगिरी, (एनटीआर-16588डब्ल्यू), एएमसी/एनटी

मेजर त्रिलोचन दास, (एनटीआर-16544वाई), एएमसी/एनटी

21 अप्रैल 2005 से प्रभावी

मेजर राम कुमार, (एनटीआर-16682ए), एएमसी/एनटी

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान (कु.) ताहिरा जान, (एमएस-13417वाई), 04 फरवरी 2003

कप्तान एन श्रीनिवासन, (एमएस-13790वाई), 16 जुलाई 2003

कप्तान पाल विश्वादीप मनोज, (एमएस-13637एच), 23 जुलाई 2003

कप्तान अश्वनि कुमार पटेल, (एमएस-13834एल), 26 जुलाई 2003

कप्तान संजय कुमार, (एमएस-13794पी), 02 अगस्त 2003

कप्तान राउरी रवि, (एमएस-13679), 04 अक्टूबर 2003

कप्तान वी राम कुमार, (एमएस-13981एन), 13 अक्टूबर 2003

कप्तान प्रदीप एम आर, (एमएस-13985के), 01 अप्रैल 2004

कप्तान मनोज बरूआ, (एमएस-13536पी), 05 दिसम्बर 2001

कप्तान सीन जौब, (एमएस-14063एन), 05 जनवरी 2005

कप्तान (कु.) के चन्द्रिका, (एमएस-14201), 29 जनवरी 2005

कप्तान हिमांशु, (एमएस-14215के), 15 फरवरी 2005

कप्तान अदिति दुसाज, (एमएस-14751एम), 17 फरवरी 2005

कप्तान मधुसूदन एम वी, (एमएस-14218एक्स), 20 फरवरी 2005

कप्तान प्रसूनचन्द्र ए मिश्रा, (एमएस-14107ए), 01 अप्रैल 2005

कप्तान रामा शंकर प्रसाद, (एमएस-14410एफ), 01 अक्टूबर 2005

कप्तान प्रशान्त भीमते (एमएस-13915एल), 02 दिसम्बर 2003

कप्तान (श्रीमती) मीता त्यागी (एमएस-14090एक्स), 15 जुलाई 2004

कप्तान दिलावत सिंह (एमएस-14057ए), 12 दिसम्बर 2004

कप्तान ज्योतिष आर नायर (एमएस-14114डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2004

कप्तान वन्दना कल्याण (एमएस-14248पी), 30 दिसम्बर 2004

कप्तान पाटिल यशवंत माधवराव (एमएस-14199एक्स), 25 जनवरी 2005

कप्तान नितिन राजाराम पोटदार (एमएस-14135एम), 08 फरवरी 2005

कप्तान बिक्रम (एमएस-14213वाई), 12 फरवरी 2005

कप्तान वन्दना गंगाधरन (एमएस-14162डब्ल्यू), 14 मार्च 2005

कप्तान सोमू चटर्जी (एमएस-14365ए), 6 सितम्बर 2005

कप्तान लक्ष्मी मिश्रा (एमएस-14409एम), 01 अक्टूबर 2005

कप्तान मनोज कान्त दिक्षित (एमएस-14004एफ), 30 मार्च 2004

कप्तान अवनीश करण (एमएस-14458पी), 19 जून 2003

कप्तान सचिन देव आचार्य (एमएस-13993एच), 13 अक्टूबर 2003

कप्तान दिपेन्द्र भूषण (एमएस-13895एच), 11 नवम्बर 2003

कप्तान पिन्दु विश्वास (एमएस-13870डब्ल्यू), 03 जनवरी 2004

कप्तान जे. निर्मल कुमार (एमएस-13842के), 06 फरवरी 2004

कप्तान अश्वनि कुमार (एमएस-14118एच), 05 जनवरी 2005

कप्तान चन्द्रशेखर ए.एम. (एमएस-14142एच), 15 मार्च 2005

कप्तान नगुखुध्सांगा शैलो (एमएस-14334ए), 21 जुलाई 2005

कप्तान सचिन बेकानालकर (एमएस-14392के), 21 जुलाई 2005

स्थाई कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान से मेजर के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या और पदोन्नति की तिथि

कप्तान डी सूबटया (एनटीआर-16625वाई), 15 अप्रैल 2004

कप्तान एसी कटोल (एनटीआर-16632पी), 24 जुलाई 2005

कप्तान रविन्द्र सिंह (एनटीआर-16634ए), 24 जुलाई 2005

कप्तान रागोथामन वी (एनटीआर-16635एच), 24 जुलाई 2005

लेफ्टि से कप्तान के पद पर

24 जुलाई 1998 से प्रभावी

लेफ्टि रविन्द्र सिंह (एनटीआर-16634ए)

(सेना चिकित्सा सेवा)

(गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट से कप्तान के पद पर

19 अप्रैल 2005 से प्रभावी

लेफ्टि. एनएस पनवर (एनटीआर-16670एल), एएमसी/एमटी

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

सर्जन लेफ्टि. से सर्जन लेफ्टि. कमाण्डर के पद पर

सर्जन लेफ्टि. लाल नुन्ट लांगा, (एमएस-14196के) (75741एन), 19 जुलाई 2004

सर्जन लेफ्टि. मोहम्मद असिकुल्ला जी. के., (एमएस-14059एल) (75726बी), 21 दिसम्बर 2004

सर्जन लेफ्टि. निर्मल प्रसाद दास, (एमएस-14186ए) (75729के), 30 दिसम्बर 2004

सर्जन लेफ्टि. हेमन्त कुमार एल., (एमएस-14145डब्ल्यू) (75745वाई), 26 फरवरी 2005

सर्जन लेफ्टि. राजेश कन्नन बी., (एमएस-14148के) (75752एन), 12 मार्च 2005

सर्जन लेफ्टि. सुमथि एस., (एमएस-14293एफ) (75779जैड),
21 जुलाई 2005

सर्जन लेफ्टि. मुकेश टोगरा, (एमएस-14370एल) (75802ए), 08
सितम्बर 2005

सर्जन लेफ्टि. अलफोनसे अमला राज, (एमएस-14147एफ)
(75740एच), 11 मार्च 2005

सर्जन लेफ्टि. जगप्राग सिंह गुजराल, (एमएस-14136पी) (75750एफ),
09 अप्रैल 2005

सर्जन लेफ्टि. जोगेश अहूजा, (एमएस-14191एल) (75733डब्ल्यू),
11 जनवरी 2005

सर्जन लेफ्टि. शिवानन्द दलावाई, (एमएस-14094एन) (75742आर),
22 जनवरी 2005

सर्जन लेफ्टि. जिस जोसेफ पानाक्कल, (एमएस-14156के)
(75744डब्ल्यू), 26 फरवरी 2005

सर्जन लेफ्टि. तेलकटवार मोहन रामराव, (एमएस-14224एल)
(75746जेड), 03 मार्च 2005

सर्जन लेफ्टि. लोकेश एच. एल., (एमएस-14106एक्स) (75749एफ),
09 मार्च 2005

सर्जन लेफ्टि. शेखर मेहता, (एमएस-14228एफ) (75748बी), 09
मार्च 2005

फ्लाईट लेफ्टि. से स्कवाड्रन लीडर के पद पर

फ्ला. लेफ्टि. किरणमीत, (एमएस-13469पी) (एएफ-25546पी),
06 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. (कु.) ज्योति, (एमएस-14017वाई) (एएफ-
25548आर), 07 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. सी आर वी नरसिम्हालु, (एमएस-14074ए)
(एएफ-25581एल), 23 सितम्बर 2003

फ्ला. लेफ्टि. सपना रैना, (एमएस-14454वाई) (एएफ-26901जी),
11 मार्च 2004

फ्ला. लेफ्टि. रूपमा चौधुरी, (एमएस-14246के) (एएफ-26474टी),
16 दिसम्बर 2004

फ्ला. लेफ्टि. मोहम्मद इमरान गौरी, (एमएस-14185एक्स)
(एएफ-26033एफ), 29 दिसम्बर 2004

फ्ला. लेफ्टि. राजकुमार पी. सजाने, (एमएस-14093एल)
(एएफ-26066एल), 18 जनवरी 2005

फ्ला. लेफ्टि. अभिजीत लाल, (एमएस-14195एफ) (एएफ-
26067आर), 18 जनवरी 2005

फ्ला. लेफ्टि. पासंग डोमा डुकपा, (एमएस-14255एल)
(एएफ-26068टी), 19 जनवरी 2005

फ्ला. लेफ्टि. संजय, (एमएस-14376एम) (एएफ-26494के), 21
जुलाई 2005

फ्ला. लेफ्टि. देवाशीष गांगुली, (एमएस-14006एम)
(एएफ-25589ए), 05 नवम्बर 2003

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 200, दिनांक 22 मार्च 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

रेजिमेंटल कमीशन

कप्तान से मेजर

आरसी नं., नाम, आर्म

993 श्री मुन्ना सिंह, ईन्ट--16 दिसम्बर 2004

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी-53606 कुलदीप मगोत्रा, एससी

आईसी-53802 मकम किरण कुमार, सिगनल्स

आईसी-53815 सुनील नायर, एडी

आईसी-53839 सुरेन्द्र सिंह, एससी

आईसी-53940 हर सिमरन पाल सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-53972 राहुल जैन, एससी

आईसी-55242 राकेश कृष्णन, इन्फैन्ट्री

आईसी-55770 सुनील जुत्सी, इन्फैन्ट्री

आईसी-55775 हरबिन्दर सिंह बैन्स, इन्फैन्ट्री

आईसी-55776 जीसस बेनिनो फुरतदा, आर्टी

आईसी-56623 सलिल लामा, एससी

आईसी-56705 नवरूप सिंह कहलो, एससी

आईसी-56912 महेश प्रताप सिंह, आईसी

आईसी-57287 लालजीत प्रसाद, इन्फैन्ट्री

आईसी-57819 रमनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-57861 रजत मोहन भट्ट, आर्टी

आईसी-58460 हरीश कुमार, एओसी

आईसी-59020 पोलश गोगई, सिगनल्स

आईसी-59023 आशुतोष कुमार सिंह, ईएमई

--16 दिसम्बर 2004--

अजय गोयल
उप निदेशक
एम एस 8 सी

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 201, दिनांक 20 मार्च 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थापन करते हैं :--

1. श्री एस.के. घोष, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), मुख्यालय गु.आ.नि. (वाहन), नई दिल्ली का व.गु.आ.स्था. (इंजीनियरी उपस्कर), कोलकाता में 16 मार्च 2005 (पूर्वाह्न) से व.गु.आ.अ. के रूप में।
2. श्री एस.के. गुप्ता, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), सी.आई.आर. टी.ई.एस., पूसा, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर, का मुख्यालय गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली में 01 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।
3. श्री विजय कुमार, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुम्बई का गु.आ.नि. (सामान्य भंडार), कानपुर में 09 मई 2005 (पूर्वाह्न) से अपर नियंत्रक के रूप में।
4. श्री डी. राय चौधरी, प्र.वै.अ. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (कपड़ा एवं मिल), कानपुर का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुम्बई में 29 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न) से व.गु.आ.अ. के रूप में।
5. श्री बी.के. दास, संयुक्त नियंत्रक, गु.आ.नि. (विशेष वाहन), देहू रोड का गु.आ.नि. (अग्निशमन उपस्कर), पुणे में 31 मई 2005 (पूर्वाह्न) से नियंत्रक के रूप में।
6. श्री एस.के. चट्टोपाध्याय, संयुक्त नियंत्रक, गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर का गु.आ.नि. (राडार), बैंगलोर में 22 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से नियंत्रक के रूप में।
7. श्री एम.के. खान, संयुक्त नियंत्रक, गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर का मुख्यालय गु.आ.नि. (आर. एंड एस.), सिकंदराबाद में 28 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से अपर निदेशक के रूप में।
8. श्री मित्र सेन, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), मुख्यालय गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली का दिनांक 25 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक संयुक्त निदेशक के रूप में।
9. श्री के.एस. मंजुनाथा, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर का गु.आ.नि. (ए.वी.एल.), अवाडी में 30 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त नियंत्रक के रूप में।
10. श्री एस.जी. जोशी, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), मुख्यालय गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली का गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिक्स), मेडक में 28 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से व.गु.आ.अ. के रूप में।
11. श्री जे. जनार्दन, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (आयुध), किरकी के अंतर्गत आर.डी.बी., पुणे का गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर में 29 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त नियंत्रक के रूप में।
12. श्री के.एस.एन. मूर्ति, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (राडार), बैंगलोर का दिनांक 30 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक संयुक्त नियंत्रक के रूप में।
13. डा. ए.जे.एस. अरोड़ा, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), चेन्नई, का मुख्यालय गु.आ.नि. (भंडार), नई दिल्ली में 18 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से अपर निदेशक के रूप में।
14. श्रीमती मंजू दीक्षित, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (टी. एंड सी.), कानपुर का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), चेन्नई में 18 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से व.गु.आ.अ. के रूप में।
15. श्री रामा यादव, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (टी. एंड सी.), कानपुर का 29 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक संयुक्त नियंत्रक के रूप में।
16. श्री ए.के. सिन्हा, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (पी. पी.), कानपुर का गु.आ.नि. (सामग्री), कानपुर में 25 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त नियंत्रक के रूप में।
17. श्री वाई.वी. बैलूर, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (सामग्री), कानपुर का मुख्यालय गु.आ.नि. (भंडार), नई दिल्ली में 04 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।
18. श्री एन. मुखोपाध्याय, संयुक्त निदेशक, र.गु.आ.सं., बैंगलोर का 29 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक अपर निदेशक के रूप में।
19. श्री सतिन्दर मोहन, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय गु.आ.नि. (इंजीनियरी), नई दिल्ली का 30 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक अपर निदेशक के रूप में।
20. श्री डी. चक्रम, संयुक्त नियंत्रक, गु.आ.नि. (आई.सी.वी.), मेडक का मुख्यालय गु.आ.नि. (सी.वी.), अवाडी में 17 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से अपर निदेशक के रूप में।
21. श्री एन.सी. गुप्ता, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), व.गु.आ.स्था. (वाहन), बदरपुर का मुख्यालय गु.आ.नि. (वाहन), नई दिल्ली में 04 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।
22. श्री पी. चिटनीस, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (वाहन), अहमदनगर का मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली में 21 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।
23. श्री एन. गुनाशेखरन, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (ई.ई.), पुणे का मुख्यालय गु.आ.नि. (इंजीनियरी), नई दिल्ली में 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।
24. श्री एन.एम. कंडास्वामी, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (भारी वाहन), अवाडी का गु.आ.नि. (आई.सी.वी.), मेडक में 23 सितंबर 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त नियंत्रक के रूप में।

25. श्री के.एम. शर्मा, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली का-मुख्यालय गु.आ.नि. (युद्धपोत परियोजना), नई दिल्ली में 13 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।
26. श्री ए.के. श्रीवास्तव, क.प्र.श्रे. (अकृतियक चयन श्रेणी), गु.आ.नि. (एस.वी.), देहू रोड का 29 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक संयुक्त नियंत्रक के रूप में।

सुभाष चन्द
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 202, दिनांक 21 मार्च 2006--

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

शुद्धि-पत्र

एम एस-14237-एच मेजर प्रवर्धन राजशेखर बी की पदोन्नति की तिथि जोकि दिनांक 10 दिसम्बर 2005 के राजपत्र में प्रकाशित क्रम संख्या 09 पर है। इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के लिए--15-03-2005 से प्रभावी

पढ़ें--15-09-2004 से प्रभावी

एम एस-13462-एल कप्तान साजल नाग की पदोन्नति की तिथि जोकि दिनांक 24 अप्रैल 2004 के राजपत्र में प्रकाशित क्रम संख्या 05 पर है। इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के लिए--20-02-2003 से प्रभावी

पढ़ें--20-08-2002 से प्रभावी

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (कार्मिक)

सं. 203, दिनांक 22 मार्च 2006--

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 25 जून 2005 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं.-- में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

सामने--आईसी-53394 आई पी बी वेधानाथन, सिग्नल्स,

10 दिसम्बर 2004

के बदले

01 नवम्बर 2004 पढ़ा जाए।

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस 8 सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th April 2006

No. 192, dated 16th March 2006.—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Health and FW to Grade I of the CSS (Under Secretary) on adhoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 24.2.2006(FN), until further orders in terms of DOP&T OM No. 21/24/2005-CS.I dated 16.2.2006.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following condition :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

No. 193, dated 16th March 2006.—The President is pleased to appoint Ms. Sungita Sharma, IRS (C&CE : 86) on transfer from the Department of Revenue, Ministry of Finance, as Director in the Department of Defence Production, Ministry of Defence w.e.f. 23.2.2006 (FN) up to 22.2.2011 or until further orders, whichever is earlier.

T.P. KERKETTA
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 194, dated 21st March 2006.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (Probn.)

Capt Shavinder (MS-14788-N), DOC, 04 Mar 2004.

With seniority for pay and promotion from 04 Mar 2001 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

Capt Biraj Gogoi (MS-14787-L), DOC, 17 Feb 2004.

With seniority for pay and promotion from 17 Feb 2001 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

Capt Anand Gupta (MS-14691-H), DOC, 09 Dec 2003.

With seniority for pay and promotion from 09 Dec 2000 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

Capt Dhananjaya Tudu (MS-14525-P), DOC, 17 Feb 2003.

With seniority for pay and promotion from 17 Feb 2000. (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

Capt Sudip Chowdhury (MS-14492-P), DOC, 19 Dec 2002.

With seniority for pay and promotion from 19 Dec 1999. (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

Capt Harbhajan Singh Naghi (MS-14408-K), DOC, 27 Mar 2002.

With seniority for pay and promotion from 27 Sept 2001. (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

Capt Vivek Kumar Tiwari (MS-14534-W), DOC, 24 Feb 2003.

With seniority for pay and promotion from 24 Aug 2002. (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

Capt Manish Kumar (MS-14489-P), DOC, 19 Dec 2002.

With seniority for pay and promotion from 19 Jun 1999. (this includes 42 months antedate for Master of Surgery and hospital appointment which will not count for gratuity).

Capt Sajal Nag (MS-13462-L), DOC, 20 Feb 1999.

With seniority for pay and promotion from 20 Aug 1998. (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officers are hereby cancelled).

Capt Rajdeep Singh (MS-14113-N), AMC, 22 Dec 2000

Capt Rajeev K (MS-14198-P), AMC, 24 Jan 2001

Capt Yashin Ansari (MS-14204-X), AMC, 05 Feb 2001

Capt Rimil Herenz (MS-14205-A), AMC, 05 Feb 2001

Capt Abhay Kumar (MS-14588-X), AMC, 20 Mar 2003

Capt Arjun MN (MS-14621-K), AMC, 07 Apr 2003

Capt Rajeev Sharma (MS-14745-Y), AMC, 01 Dec 2003

Capt Avinash Kumar (MS-14884-H), AMC, 24 Sept 2004

Capt Shalini Gupta (MS-14305-L), AMC, 25 Feb 2002

Capt Partha Pratim Singha (MS-14430-P), AMC, 05 Feb 2002

Capt Parmeshwar Kumar (MS-14686-X), AMC, 08 Dec 2003

Capt Gural Gill (MS-14896-X), AMC, 29 Oct 2004

Capt Pranav Shankar (MS-14897-A), AMC, 04 Dec 2004

Capt Ashim Roy (MS-14202-M), AMC, 31 Jan 2001

Capt Parambir Singh Soni (MS-14347-X), AMC, 29 Jan 2002

Capt Kundan Kumar (MS-14548-W), AMC, 17 Feb 2003

Capt Poran Jyoti Borpujari (MS-14581-W), AMC, 15 Mar 2003

Capt Rajesh Girdhar (MS-14762-Y), AMC, 17 Feb 2004

Capt Arti Sawhney (MS-14789-W), AMC, 04 Mar 2004

Capt Kurumapu Gouri Prasad (MS-14900-P), AMC, 17 Feb 2004

Capt Simranjit Kaur (MS-14902-A), AMC, 04 Dec 2004

Capt Mamatha Ashok Mishra (MS-14910-Y), AMC, 10 Jan 2005

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt (on probation)

Lt Nimit Solanki (MS-14859-K), AMC, 22 Sept 2004

Lt Shashikant (MS-14862-K), AMC, 22 Sept 2004

Lt Rishi Sharma (MS-14864-P), AMC, 22 Sept 2004

Lt Devender Singh (MS-14865-X), AMC, 22 Sept 2004

Lt Abhishek Bhattacharjee (MS-14868-L), AMC, 22 Sept 2004

Lt Ravi (MS-14871-L), AMC, 22 Sept 2004

Lt Satyaki Mukherjee (MS-14876-K), AMC, 22 Sept 2004

Lt Mohammad Tariq (MS-14877-M), AMC, 22 Sept 2004

Lt Sween Banger (MS-14878-P), AMC, 22 Sept 2004

Lt Jitendra Kumar Singh (MS-14879-X), AMC, 22 Sept 2004

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Surg Lt (on probation)

Surg Lt Lal Nunt Luanga-K (MS-14196-K)(75741-N), DOC, 19 Jan 2001

With seniority for pay and promotion from 19 Jul 2000 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

Surg Lt Bipulananda Rajmohan-A (MS-14284-A)(75782-F), DOC, 21 Jan 2002

With seniority for pay and promotion from 21 Jul 2001 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officers are hereby cancelled).

Surg Lt Nirmal Prasad Das (MS-14186-A)(75729-K), AMC, 30 Dec 2000

Surg Lt Smit Arani Nayak (MS-14893-K)(75862-N), AMC, 05 Oct 2004

Surg Lt Manjot Kaur (MS-14903-H)(75865-W), AMC, 04 Dec 2004

Surg Lt Akshay Kumar Nayak (MS-14909-K)(75866-Y), AMC, 10 Dec 2004

To be Surg Lt

Surg Lt Nilotpal Mitra (MS-14194-Y)(75737-B), DOC, 12 Jan 2001

With seniority for pay and promotion from 12 Jul 2000 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officers are hereby cancelled).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be FG Offr (on probation)

Fg. Offr Rahul (MS-14858-F), AMC, 22 Sept 2004

Fg. Offr Ajay Kumar (MS-14863-M), AMC, 22 Sept 2004

Fg. Offr Amit Kumar (MS-14869-N), AMC, 22 Sept 2004

Fg. Offr Manoj Goel (MS-14870-H), AMC, 22 Sept 2004

RAJESH KAMRAN

Brig
Dy. DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

No. 195, dated 17th March 2006.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :-

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Sebedar Major (GD)

Subedar Major Fate Singh Negi (JC-172581N), Formerly The Garhwal Rifles 11 Jul 2004

Subedar Major Lal Singh (JC-212978L), Formerly JAK Rifles 04 Dec 2004

Subedar Major Virendra Singh (JC-192932Y), Formerly The Rajput Regt 05 Dec 2004

In the Rank of Subedar (GD)

Subedar Gopal Singh (JC-194625A), Formerly The Garhwal Rifles 10 Jul 2004

Subedar Manwar Singh (JC-528212K), Formerly The Garhwal Rifles 02 Oct 2004

Subedar Bishan Singh Bisht (JC-204147X), Formerly Kumaon Regt 02 Oct 2004

Subedar Talsa Singh (JC-478344Y), Formerly The Rajput Regt 02 Oct 2004

Subedar Kuldip Singh (JC-160038H), Formerly AD Arty 02 Oct 2004

Subedar Trilok Singh Rawat (JC-528471M), Formerly The Garhwal Rifles 02 Oct 2004

Subedar Damodaran Prayankot Veetil (JC-193245P), Formerly ASC (Sup) 03 Oct 2004

Subedar Subash Dadhwal (JC-412061X), Formerly Para Regt 04 Dec 2004

Subedar Roshan Deen (JC-478685K), Formerly The Rajput Regt 04 Dec 2004

Subedar Satish Kumar Mall (JC-629254X), Formerly 9 GR 04 Dec 2004

Subedar Siva Kumaran Nair V (JC-438080A), Formerly The Madras Regt 05 Dec 2004

Subedar Jagtamba Parshad Sharma (JC-518549Y), Formerly The Dogra Regt 05 Dec 2004

In the rank of Naib Sebedar (GD)

Nb Sub Tejendra Bahadur GC (JC-260407K), Formerly Artillery 01 May 2004

Nb Sub Ravi Sher Singh (JC-841637A), Formerly Indian Navy 01 May 2004

Nb Sub Tarsem Singh (JC-578617L), Formerly JAK Rifle 12 Jul 2004

Nb Sub Vidya Rattan (JC-592043P), Formerly JAK LI 02 Oct 2004

Nb Sub Alam Sher (JC-183409M), Formerly The Grenadiers 02 Oct 2004

Nb Sub Barma Nand (JC-237008N), Formerly Armd Corps 02 Oct 2004

Nb Sub Kalidass Thakur (JC-262773M), Formerly Artillery 04 Oct 2004

Nb Sub Manohar Singh (JC-173217F), Formerly Sikh LI 04 Dec 2004

Nb Sub Jagdish Raj (JC-548293W), Formerly Assam Regt 05 Dec 2004

Nb Sub Harish Kumar Dogra (JC-412638M), Formerly Parachute Regt 05 Dec 2004

Nb Sub Ram Kishan (JC-192399P), Formerly Raj Rif 05 Dec 2004

Nb Sub Gian Chand (JC-518285H), Formerly Dogra Regt 05 Dec 2004

Nb Sub Baldev Singh (JC-518320A), Formerly Dogra Regt 05 Dec 2004

T.K.M. PILLAI, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 196, dated 21st March 2006.—The president is pleased to confirm the under mentioned AMC/PC (Non Tech) officers consequent on completion of the probatory period :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

1. NTR-16685M Lt Jasvinder Singh 04 Apr 2001
2. NTR-16690-Y Lt Mahipal 27 Apr 2002

The president is pleased to confirm the under mentioned AMC/SSC (Non Tech) officers consequent on completion of the probatory period :-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

1. NTS-17474-X Lt Prasannan Pillai B 24 April 2002
2. NTS-17473-P Lt Lakpa Yelmu 24 April 2002
3. NTS-17463-L Lt Annappa Narayan Shet 24 April 2002
4. NTS-17481-N Lt Om Prakash Nain 26 April 2002
5. NTS-17483-Y Lt Gokaran Singh 19 May 2003

WITH EFFECT FROM 02 APR 2004

1. NTS-17489A Lt Om Prakash Bishnoi
2. NTS-17492A Lt Pravin Singh
3. NTS-17500N Lt Murali Dass R
4. NTS-17490P Lt Rakesh Kumar
5. NTS-17498K Lt Sri Manoj Kumar Agnihotry
6. NTS-17488X Lt Harpreet Singh
7. NTS-17494L Lt Ravinder Kumar Sharma
8. NTS-17487P Lt Jayakrishnan M
9. NTS-17497Y Lt Sunil Chauhan

RAJESH KAMRAN
Brig Dy DGAFMS(Pers)

ARMY BRANCH

No. 197, dated 17th March 2006.—The President is please to make the following promotion.

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

To be Substantive Sub Maj (GD/CLK)

Name, Rank, Personal No, Date of promotion/Substantive Rank of Sub Maj

Ram Dhari, Sub (GD), (JC-198866X), 01 May 2005

Durga Dutt, Sub (GD), (JC-211830A), 01 Jun 2005

Bajrangi Prasad Mishra, Sub Clk (GD), (JC-214492Y), 07 Jun 2005*

*(Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(GD) wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

ARMY SERVICE CORPS(SUPPLY)

To be Naib Subedar CLK(GD/SD)

Havildar Awadhesh Singh Yadav (6378021M Now JC-663734N), 21 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Satbir Singh Chauhan (6377958L Now JC-663735W), 21 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Ram Chander (6378079K Now JC-663736Y), 25 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Tapan Kumar Ganguly (6378086K Now JC-663737F), 01 Dec 2005

Havildar Arjun Lal (6378089N Now JC-663738K), 20 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Kuldeep Singh (6378091L Now JC-663739M), 05 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Satvir Singh (6378093W Now JC-663740F), 22 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Naresh Kumar Bharti (6378106H Now JC-663741K), 30 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Yashpal Singh (6378111N Now JC-663742M), 26 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Lakshman Singh Kharayat (6378127Y Now JC-663743P), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

Havildar Ravindra Singh Bhati (6378143W Now JC-663744X), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

Havildar Prakash Kumar Das (6378174W Now JC-663745A), 01 Jan 2006

Havildar Jai Kumar Singh (6378175Y Now JC-663746H), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

Havildar Om Prakash (6378165P Now JC-663747L), 01 Jan 2006

Havildar Brajpal Singh (6378185H Now JC-663748N), 01 Jan 2006

Havildar Dhrub Singh (6378188W Now JC-663749W), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

Havildar Sanjay Kumar Gupta (6378202X Now JC-663750L), 01 Jan 2006

Havildar Ranjit Kumar Das (6378242Y Now JC-663751N), 01 Jan 2006

Havildar Narendra Kumar Panda (6378243F Now JC-663752W), 01 Jan 2006

Havildar Jagdish Chand (6378205L Now JC-663753Y), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

Havildar Suresh Chander (6378289K Now JC-663754F), 01 Jan 2006

To be Naib Subedar Personal Assistant

Havildar Amar Singh Chauhan (4465637K Now JC-663755K), 22 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Aruna Kumar Jena (14558051X Now JC-663756M), 01 Jan 2006

Havildar Hans Raj (14243879A Now JC-663757P), 01 Jan 2006

Havildar Surender Kumar (6378817H Now JC-663758X),
01 Jan 2006

S.P. SHARMA, Under Secy.

No. 198, dated 16 March 2006—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Madan Lal (JC-172162W), 02 July 2005
Subedar KP Vijayan (JC-133726X), 01 Aug 2005
Subedar Gurbachan Singh (TJ-3122P), 01 Aug 2005
Subedar Dharam Pal (JC-210091M), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Bhanwar Dan (JC-840783N), 01 July 2005
Nb Sub Dalip Singh (JC-194620F), 01 July 2005
Nb Sub Diwan Singh (JC-412015H), 01 July 2005
Nb Sub Ajit Singh (JC-208018P), 01 July 2005
Nb Sub Nishan Singh (JC-205021K), 01 July 2005
Nb Sub Adesh Kumar (JC-478073M), 01 Aug 2005
Nb Sub Kashmir Singh (JC-578502X), 01 Aug 2005
Nb Sub Jasmail Singh (JC-508392W), 01 Aug 2005
Nb Sub Gian Chand Jaswal (JC-428654N), 01 Aug 2005
Nb Sub Brij Kishor (JC-478336A), 01 Aug 2005
Nb Sub Rajendra Singh (JC-478643X), 01 Aug 2005
Nb Sub Kavungal Sreedharan Rajan (JC-368729N), 01 Aug 2005

Nb Sub Fateh Singh Gurjar (JC-478270P), 01 Aug 2005
Nb Sub Rikhi Ram (JC-548311X), 01 Aug 2005
Nb Sub Gajraj Singh (JC-168824W), 01 Aug 2005
Nb Sub Saujan Singh (JC-840670L), 01 Aug 2005
Nb Sub Wakil Singh (JC-195049N), 01 Aug 2005
Nb Sub Sarvalingam (JC-196168W), 01 Aug 2005
Nb Sub Indrajit Mishra (JC-558071P), 01 Aug 2005
Nb Sub Dharampal (JC-224504W), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub/Clerk Man Singh (JC-840855M), 01 Jun 2005
Nb Sub/Clerk Hakam Singh (JC-840854K), 01 Oct 2005

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Charanjit Singh (JC-178987X), 01 Feb 2005
Sub Shakti Chand (JC-201085X), 01 Jul 2005

Sub Jaswant Singh (JC-162934P), 01 Jul 2005

Sub Gajraj (JC-124407K), 01 Jul 2005

Sub Nadaparambil Joseph Simon (JC-145034P), 01 Jul 2005

Sub Balbir Singh (JC-155362W), 01 Jul 2005

Sub Wali Mohd Lone (JC-158447X), 01 Jul 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-203856A), 01 Dec 2004
Nb Sub Ghan Bahadur Gurung (JC-175863X), 01 Feb 2005
Nb Sub Nandan Singh (JC-180784M), 01 Apr 2005
Nb Sub Amarnath Singh (JC-840742H), 01 June 2005
Nb Sub MV Soman (JC-840711K), 01 June 2005
Nb Sub Ghamandi Singh Mahura (JC-840728X), 01 June 2005
Nb Sub Madan Kumar Rai (JC-840743M), 01 June 2005
Nb Sub Hiralal Patel (JC-840705W), 01 June 2005
Nb Sub Arun Waman Rao Deshpande (JC-840716H), 01 June 2005
Nb Sub Azadvir Singh (JC-840717L), 01 June 2005
Nb Sub Faujdar Singh Yadav (JC-840706Y), 01 June 2005
Nb Sub Dhiraj Singh (JC-840729A), 01 June 2005
Nb Sub Ramesh Chandra Singh (JC-840719W), 01 June 2005
Nb Sub Diggewadi Subhas (JC-840723Y), 01 July 2005
Nb Sub Ramphal (JC-840733H), 01 July 2005
Nb Sub Kishan Singh (JC-840749N), 01 July 2005
Nb Sub Harbans Lal (JC-840754Y), 01 July 2005
Nb Sub Samsuddin (JC-840737Y), 01 July 2005
Nb Sub Balwant Singh (JC-840756K), 01 July 2005
Nb Sub Gore Shankar Ishwar (JC-840752K-), 01 July 2005
Nb Sub Romesh Chand (JC-840782L), 01 July 2005
Nb Sub Somnath (JC-840800H), 01 July 2005
Nb Sub Amarpal Singh (JC-147451A), 01 July 2005
Nb Sub Onkar Singh (JC-220298A), 01 July 2005
Nb Sub Bikram Singh Rajawat (JC-218247N), 01 July 2005

To be Naib Sub (GD)

Hav Dhani Ram (No. 14512395X now JC-841835L), 25 July 2005*

Hav Rajan M (No. 14328967N now JC-841836N), 22 Sep 2005*

Hav Lachhuman Tiwari (No. 13854216W now JC-841842F), 26 Aug 2005*

Hav Devasagayam (No. 1370807P now JC-841845P),
25 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Ramji Singh (No. 6903072W now JC-841855Y), 12 Aug
2005**

Hav Prithvi Singh (No. 2862166X now JC-841856F), 27 July
2005**

Hav Daroga Singh (No. 1447977F now JC-841864A), 13 Sep
2005**

Hav Avarachan TP (No. 14313404W now JC-841865W),
17 Aug 2005**

Hav Birjesh Kumar (No. 2969743W now JC-841866L),
26 Sep 2005**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June
2005 without effect on pay & allowances)

Hav Vishwambar Nath (No. 14518506A now JC-841876P),
24 Sep 2005***

Hav Balbir Singh (No. 1247720M now JC-841880X), 22 Sep
2005***

Hav Gian Chand (No. 13732826N now JC-841881A), 23
Sep 2005***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July
2005 without effect on pay & allowances)

To be Naib Subedar Clerk

Hav Clk Jagada Nanda Mohanty (No. 10259051M now JC-
841868W), 22 June 2005****

Hav Clk Jitendra Nath Singh (No. 10259101M now JC-
841869Y), 26 July 2005****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June
2005 without effect on pay & allowances)

Hav Clk Dhananjay Prasad (No. 1457617Y now JC-
841870N), 01 July 2005*****

Hav Clk Milap Chand Rana (No. 10360915M now JC-
841871W), 01 July 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub clerk wef
01 July 2005).

Hav Clk Harnam Singh (No. 10465336Y now JC-841886Y),
07 Sep 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2005 without effect on pay & allowances)

Hav Clk M Sreekantan Nair (No. 1064020L now JC-
841887F), 26 Sep 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2005 without effect on pay & allowances)

Hav Clk Bhanwar Singh (No. 10301702F now JC-841888K),
22 Oct 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Oct 2005 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav Nagarmal (No. 10301712L now JC-841821L), 02 Aug
2005*

Hav Lachman Singh (No. 10465390M now JC-841824Y),
18 Aug 2005*

Hav M Thandayutham (No. 10451251X now JC-841825F),
10 Aug 2005*

Hav Ram Phal (No. 1253860P now JC-841827M), 17 Aug
2005*

Hav Zabar Singh Chauhan (No. 2967540N now JC-
841828P), 16 Aug 2005*

Hav Komal Singh (No. 6462812P now JC-841831P), 20 Aug
2005*

Hav Rajadhari Dubey (No. 13921190F now JC-841832X),
04 Aug 2005*

Hav Ram Chand (No. 1259403X now JC-841833K), 01 Aug
2005*

Hav Varinder Singh (No. 10479059K now JC-841834H), 16
Aug 2005*

Hav Bhrigunath Tiwari (No. 14216394N now JC-841839F),
09 Aug 2005*

Hav Purna Bhadur Thapa (No. 5746289N now JC-
841840W), 03 Aug 2005*

Hav Baldev Singh Gill (No. 13732309W now JC-841841Y),
22 July 2005*

Hav Jaswinder Singh (No. 4453399W now JC-841843K), 31
Aug 2005*

Hav Harji Singh (No. 14302451N now JC-841844M),
17 Aug 2005*

Hav Krishnapal Singh (No. 2967749Y now JC-841846X), 01
Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005
without effect on pay & allowances)

Hav Surendran K (No. 1259985H now JC-841852L),
18 Aug 2005**

Hav Kashmir Singh (No. 2462600L now JC-841853N),
20 Aug 2005**

Hav Gazar Singh (No. 10196210F now JC-841854W),
02 Aug 2005**

Hav Rajbir Singh (No. 10227428X now JC-841857K),
19 Sep 2005**

Hav Mohan Singh Chhetri (No. 5746432P now JC-841859P),
08 Aug 2005**

** Hav Pawan Kumar (No.3964645H now JC-841862P),
12 Aug 2005

** Hav Bhawani Lal (No.2861263H now JC-841867N),
16 Aug 2005

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June
2005 without effect on pay & allowances).

*** Hav Dilbagh Singh (No.1258299H now JC-841872Y),
08 Aug 2005

*** Hav Shankar Singh (No.5745853L now JC-841873F),
29 July 2005

*** Hav Indrapal Singh (No.4161990A now JC-841874K),
01 July 2005

*** Hav Braj Bhushan Singh (No.1450684F now JC-
841875M), 04 Aug 2005

*** Hav Ramesh Chand (No.2465427X now JC-841877X),
02 Sep 2005

*** Hav Shiv Parshad (No.10196433Y now JC-841878A),
01 Aug 2005

*** Hav Chhailu Ram Chaudhary (No.1042833F now JC-
841879H), 23 July 2005

*** Hav Kop Singh (No.6905851X now JC-841884N), 31
Aug 2005

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shaikh Musa Shaikh Hassan (No. 13918380H now
JC-841822N), 29 July 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kulwinder Singh (No. 10478299P now JC-
841892M), 01 Oct 2005**

Hav Balbir Singh (No. 3373783N now JC-841894X), 24
Nov 2005**

Hav Rameshwar Singh (10301496H now JC-841904W),
01 Dec 2005**

Hav Uttam Kishan Kadam (No. 10118536L now JC-
841910K), 05 Dec 2005**

Hav Hardeo Prasad Singh (No. 14516356W now JC-
841912P), 17 Dec 2005**

Hav Suranjan Singh (No. 1064216Y now JC-841915H),
21 Dec 2005**

Hav Mohan Shukla (No. 8824221K now JC-841916L),
16 Dec 2005**

Hav Dhir Singh (No. 2967494K now JC-841919Y), 20
Dec 2005**

Hav Rajeswar Yadav (No. 10258952M now JC-841926P),
15 Dec 2005**

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Amra Singh (No. 1297868F now JC-841932H), 16
Dec 2005***

Hav Kannan (No. 1344147L now JC-841938K), 16 Dec
2005***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Hav A Viswanatha Pillai (No. 10326717P now JC-
841943P), 14 Dec 2005****

Hav Dhani Ram (No. 10357511Y now JC-841944X), 12
Dec 2005****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav Clk Yado Ram (No. 1057763L now JC-841889M),
16 Nov 2005*****

Hav Clk Shingara Singh (No. 3369445Y now JC-
841890F), 09 Jan 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk)
wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Khade Vilas Baburao (No. 14326984P now JC-
841927X), 10 Nov 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk)
wef 22 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Appasa Khadaka Bhavi (No. 10419739A now
JC-841928A), 05 Dec 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk)
wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Naresh Kumar Singh (No. 1453477A now JC-
841937F), 06 Dec 2005*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub
(Clerk) wef 01 Dec 2005 without effect on pay and
allowances).

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Hakim Singh Dhangar (No. JC-165330F), 01
Nov 2005

Subedar Kedar Datt Dobriyal (No. JC-159246L), 01 Nov
2005

Subedar Bhupal Chand (No. JC-171982W), 01 Nov 2005

Subedar Kishan Bahadur Thapa (No. JC-159328N), 01
Nov 2005

Subedar Manohar Singh (No. JC-158517L), 01 Nov 2005

Subedar Avtar Singh (No. JC-143537F), 01 Nov 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Krishan Kumar (No. JC-810228L), 01 Nov 2005

Nb Sub Badri Singh (No. JC-210648N), 01 Nov 2005

Nb Sub Chain Singh (No. JC-236487N), 01 Nov 2005
 Nb Sub Devi Dayal (No. JC-108421N), 01 Nov 2005
 Nb Sub Ranvir Singh (No. JC-840815L), 01 Nov 2005
 Nb Sub Hoshiar Singh (No. JC-840832L), 01 Nov 2005
 Nb Sub Chander Bhan (No. JC-840777K), 01 Nov 2005
 Nb Sub Ram Sarup (No. JC-840766N), 01 Nov 2005
 Nb Sub Bhuri Singh (No. JC-840779L), 01 Nov 2005

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

Warrant Officers/Hav(Clks) to be Nb Sub/Clk (Postal)

WO Thimmoji Rao BG (No. 8373564F now JC-834537M), 14 Jun 2005\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Lahariya Kailas Raghunandan (No. 8430161H now JC-834538P), 01 Apr 2005@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

WO Vinod (No. 8373610L now JC-834539X), 10 Oct 2005%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Wahid Ali Khan (No. 8028024X now JC-834540M), 10 Jun 2005*

Hav/Clk Raj Kishore (No. 8430104X now JC-834541P), 21 Jun 2005*

Hav/Clk Brajesh Kumar (No. 8430256H now JC-834542X), 11 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

WO Prabhakar Suresh Yadav (No. 8369915N now JC-834492X), 22 Sep 2004*

WO Daleep Kumar (No. 8370513H now JC-834493A), 04 Dec 2004*

WO Desh Raj (No. 8370654X now JC-834494H), 10 Dec 2004*

WO Satya Prakash Shukla (No. 8371587K now JC-834495L), 20 Sep 2004*

WO Ram Prakash Yadav (No. 8369175K now JC-834496N), 17 Sep 2004*

WO K Abdul Majeed (No. 8373693F now JC-834497W), 17 Sep 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Kali Ram (No. 8430817M now JC-834498Y), 22 Jul 2004@

Hav (Clk) Subhash Pal (No. 8430807H now JC-834499F), 05 Jul 2004@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

WO Daleep Singh (No. 8370770A now JC-834500L), 29 Sep 2004**

WO Mohan Lal Verma (No. 8371660X now JC-834501N), 16 Sep 2004**

WO Sushil Kumar Verma (No. 8371668K now JC-834502W), 02 Oct 2004**

WO Shasher Singh Saun (No. 8371753M now JC-834503Y), 08 Nov 2004**

WO Patil Pundalik Ramu (No. 8372860A now JC-834504F), 19 Nov 2004**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Keshav Das (No. 8430443F now JC-834505K), 05 Jul 2004#

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Dharmveer Yadav (No. 8430165Y now JC-834506M), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Mahendra Prasad (No. 8430648W now JC-834507P), 09 Aug 2004\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

WO Har Narayan Sharma (No. 8371888N now JC-834451N), 20 May 2004%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Lohalkar Ganesh Shantaram (No. 8430640K now JC-834452W), 01 Mar 2004

Hav/Clk Jagmohan Ray (No. 8430644A now JC-834461X), 02 Apr 2004\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Seikh Ashraf Ali (No. 8430650N now JC-834462A), 01 May 2004

Hav/Clk Wilfred J (No. 8430711A now JC-834463H), 01 May 2004

WO Mallampalli Deniel (No. 8370502M now JC-834464L), 06 Jul 2004*

WO Kishore Kumar Sharma (No. 8370526A now JC-834465N), 21 Jun 2004*

WO Sukh Ram Singh (No. 8370679K now JC-834466W), 28 Jun 2004*

WO Mool Singh (No. 8371065N now JC-834467Y), 05 Jul 2004*

WO Paramasivan A (No. 8371087M now JC-834468F),
18 Jun 2004*

WO Kamlesh Kumar (No. 8371203K now JC-834469K),
30 Jun 2004*

WO Bal Govind Maurya (No. 8371228W now JC-834470Y), 18 Jun 2004*

WO Ajay Kumar Singh (No. 8371269A now JC-834471F),
06 Jul 2004*

WO Hira Lal Gohiya (No. 8371399H now JC-834472K),
25 Jun 2004*

WO Chandra Prakash Singh (No. 8371436L now JC-834473M), 27 Sep 2004*

WO Pramod Nath Jha (No. 8371579L now JC-834474P),
22 Jun 2004*

WO Amrendra Prasad Singh (No. 8371615L now JC-834475X), 22 Jun 2004*

WO Mukesh Kapila (No. 8371633N now JC-834476A),
18 Jun 2004*

WO M Sadanandam (No. 8371682W now JC-834477H),
28 Jun 2004*

WO Amrit Lal (No. 8372187K now JC-834478L), 02 Jul 2004*

WO Chintamani (No. 8369172W now JC-834479N),
21 Jun 2004*

WO Santwilas Singh (No. 8372550P now JC-834480H),
18 Aug 2004*

WO Sarbjit Singh (No. 8372722Y now JC-834481L),
24 Jun 2004*

WO Virendra Singh (No. 8369349Y now JC-834482N),
25 Jun 2004*

WO Ram Prasad Negi (No. 8373392X now JC-834483W), 07 Aug 2004*

WO Rajendra M Ghorpade (No. 8373579K now JC-834484Y), 18 Jun 2004*

WO S Panchamoorthy (No. 8373589N now JC-834485F),
28 Jun 2004*

WO Mohinder Lal (No. 8373594Y now JC-834486K),
02 Aug 2004*

WO Dal Kumar Subba (No. 8373691W now JC-834487M), 26 Aug 2004*

WO Nagraj Devagundi (No. 8373800X now JC-834488P),
12 Jul 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2004 without effect on pay and allowances).

WO Hoshier Singh Jangir (No. 8371038K now JC-834489X), 07 Jul 2004**

Hav/Clk Sohrab Ali (No. 8430840A now JC-834490M),
01 Jun 2004

Hav/Clk Mali Shiva Ninga Tamana (No. 8430525K now JC-834491P), 11 Jun 2004**

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

To be Sub/Clk (Postal)

Nb Sub/Clk (Postal) Akhoy Kumar Ghosh (JC-834278P),
01 Jun 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Ram Singh (JC-834292F), 01 Jun 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Balkishan (JC-834293K), 01 Jul 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Charan Singh (JC-834294H), 01 Jul 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Narain Singh (JC-834296X), 03 Jul 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Laljit Singh (JC-834297A), 01 Nov 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Satpal Singh (JC-834298H),
01 Nov 2004

Nb Sub/Clk (Postal) Jagdish Prasad Jain (JC-834307Y),
15 Apr 2005

Nb Sub/Clk (Postal) Ram Nath (JC-834310Y), 15 Apr 2005

Nb Sub/Clk (Postal) Sawat Vishnu Nagu (JC-834311F),
01 Jul 2005

Nb Sub/Clk (Postal) Kuldip Singh (JC-834312P), 01 Oct 2005

T.K.M. PILLAI
Under Secy.

No. 199, dated 21st March 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Major to Lt Col (TS)

With effect from 21 Jan 2005

Major Ramaswamy Vellingiri, (NTR-16588W), AMC/NT

Major Trilochan Dash, (NTR-16544Y), AMC/NT

With effect from 21 Apr 2005

Major Ram Kumar, (NTR-16682A), AMC/NT

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Major

Capt (Miss) Taihira Jan, (MS-13417Y), 04 Feb 2003

Capt N Srinivasan, (MS-13790Y), 16 Jul 2003

Capt Paul Vishwadeep Manoj, (MS-13637H), 23 Jul 2003
 Capt Ashwini Kumar Patel, (MS-13834L), 26 Jul 2003
 Capt Sanjay Kumar, (MS-13794P), 02 Aug 2003
 Capt Ravoori Ravi, (MS-13679P), 04 Oct 2003
 Capt V Ram Kumar, (MS-13981N), 13 Oct 2003
 Capt Pradeep MR, (MS-13985K), 01 Apr 2004
 Capt Manoj Barua, (MS-13536P), 05 Dec 2001
 Capt Sheen Job, (MS-14063N), 05 Jan 2005
 Capt (Miss) K Chandrika, (MS-14201K), 29 Jan 2005
 Capt Himanshu, (MS-14215K), 15 Feb 2005
 Capt Aditi Dusaj, (MS-14751M), 17 Feb 2005
 Capt Madhusudhana MV, (MS-14218X), 20 Feb 2005
 Capt Prasunchandra A Mishra, (MS-14107A), 01 Apr 2005
 Capt Rama Shankar Prasad, (MS-14410F), 01 Oct 2005
 Capt Prashant Bhimte, (MS-13915L), 02 Dec 2003
 Capt (Mrs) Meeta Tyagi, (MS-14090X), 15 Jul 2004
 Capt Dilawar Singh, (MS-14057A), 12 Dec 2004
 Capt Jyotish R Nair, (MS-14114W), 28 Dec 2004
 Capt Vandana Katyal, (MS-14248P), 30 Dec 2004
 Capt Patil Yeshwant Madhav Rao, (MS-14199X), 25 Jan 2005
 Capt Nitin Rajaram Potdar, (MS-14135M), 08 Feb 2005
 Capt Bikram, (MS-14213Y), 12 Feb 2005
 Capt Vandana Gangadharan, (MS-14162W), 14 Mar 2005
 Capt Somu Chatterjee, (MS-14365A), 06 Sept 2005
 Capt Lakshmi Mishra, (MS-14409M), 01 Oct 2005
 Capt Manoj Kant Dixit, (MS-14004F), 30 Mar 2004
 Capt Awanish Karan, (MS-14458P), 19 Jun 2003
 Capt Sachin Dev Acharya, (MS-13993H), 13 Oct 2003
 Capt Dipendra Bhushan, (MS-13895H), 11 Nov 2003
 Capt Pintu Biswas, (MS-13870W), 03 Jan 2004
 Capt J Nirmal Kumar, (MS-13842K), 06 Feb 2004
 Capt Ashwani Kumar, (MS-14118H), 05 Jan 2005
 Capt Chandrashekar AM, (MS-14142H), 15 Mar 2005
 Capt Ngurduhsanga Sailo, (MS-14334A), 21 Jul 2005
 Capt Sachin Bekanalkar, (MS-14392K), 21 Jul 2005

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Capt to Major

Name, Rank, Personal No., Date of Promotion

D Subbaiah, Capt (NTR-16625Y), 15 Apr 2004

L C Katoch, Capt (NTR-16632P), 24 Jul 2005

Ravindra Singh, Capt (NTR-16634A), 24 Jul 2005

Ragothaman V, Capt (NTR-16635H), 24 Jul 2005

Lt to Capt

With effect from 24 Jul 1998

Ravindra Singh Lt, (NTR-16634A)

With effect from 19 Apr 2005

S S Panwar Lt, (NTR-16670L), AMC/NT

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CROPS

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Surg Lt Lal Nunt Luanga, (MS-14196K) (75741N), 19 Jul 2004

Surg Lt MD Asifulla GK, (MS-14059L) (75726B), 21 Dec 2004

Surg Lt Nirmal Prasad Das, (MS-14186A) (75729K), 30 Dec 2004

Surg Lt Hemanth Kumar L, (MS-14145W) (75745Y), 26 Feb 2005

Surg Lt Rajesh Kannan B, (MS-14148K) (75752N), 12 Mar 2005

Surg Lt. Sumathi S, (MS-14293F) (75779Z), 21 Jul 2005

Surg Lt Mukesh Togra, (MS-14370L) (75802A), 08 Sept 2005

Surg Lt Alphonse Amala Raj, (MS-14147F) (75750H), 11 Mar 2005

Surg Lt Jagprag Singh Gujral, (MS-14136P) (75760F), 09 Apr 2005

Surg Lt Jogesh Ahuja, (MS-14191L) (75733W), 11 Jan 2005

Surg Lt Shivanand Dalawai, (MS-14094N) (75742R), 22 Jan 2005

Surg Lt Jiss Joseph Panakkal, (MS-14156K) (75744W), 26 Feb 2005

Surg Lt Telkatwar Mohan Ramrao, (MS-14224L) (75746Z), 03 Mar 2005

Surg Lt Lokesh HL, (MS-14106X) (75749F), 09 Mar 2005

Surg Lt Shekhar Mehta, (MS-14228F) (75748B), 09 Mar 2005

Flt Lt to Sqn Ldr

Flt Lt Kiranmeet, (MS-13469P) (AF-25546P), 06 Jan 2003
 Flt Lt (Miss) Jyoti, (MS-14017Y) (AF-25548R), 07 Jan 2003
 Flt Lt CRV Narasimhalu, (MS-14074A) (AF-25581L), 23 Sept 2003
 Flt Lt Sapna Raina, (MS-14454Y) (AF-26901G), 11 Mar 2004
 Flt Lt Rupama Chaudhuri, (MS-14246K) (AF-26474T), 16 Dec 2004
 Flt Lt Mohd Imran Ghori, (MS-14185X) (AF-26033F), 29 Dec 2004
 Flt Lt Raj Kumar P Sajane, (MS-14093L) (AF-26066L), 18 Jan 2005
 Flt Lt Abhijit Lal, (MS-14195F) (AF-26067R), 18 Jan 2005
 Flt Lt Pasang Doma Dukpa, (MS-14255L) (AF-26068T), 19 Jan 2005
 Flt Lt Sanjay, (MS-14376M) (AF-26494K), 21 Jul 2005
 Flt Lt Debashish Ganguli, (MS-14006M) (AF-25589A), 05 Nov 2003

RAJESH KAMRAN
 Brig
 Dy DGAFMS (Pers.)

No. 200, dated the 22nd Mar 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

REGIMENTAL COMMISSION

Capt to be Maj

RC No., Name, Arm

993 Sri Munna Singh, Int—16 Dec 2004

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name & Arm

IC-53606 Kuldeep Magotra, ASC

IC-53802 Makam Kiran Kumar, Sigs

IC-53815 Sunil Nayar, AD

IC-53839 Surendra Singh, ASC

IC-53940 Harsimran Paul Singh, Engrs

IC-53972 Rahul Jain, ASC

IC-55242 Rakesh Krishnan, Inf

IC-55770 Sunil Zutshi, Inf

IC-55775 Harbinder Singh Bains, Inf

IC-55776 Jesus Benino Furtada, Arty

IC-56623 Salil Lama, AC

IC-56705 Navroop Singh Kahlon, AOC

IC-56912 Mahesh Pratap Singh, AEC

IC-57287 Laljeet Prasad, Inf

IC-57819 Ramandeep Singh, Inf

IC-57861 Rajat Mohan Bhatt, Arty

IC-58460 Harish Kumar, AOC

IC-59020 Polash Gogoi, Sigs

IC-59023 Ashutosh Kumar Singh, EME

—16 Dec 2004

AJAY GOEL

Dy Dir

MS-8C

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 201, dated the 20 Mar 2006.—The President is pleased to make the following placements :—

1. Shri SK Ghosh, JAG(NFSG), HQ DQA(V), New Delhi to be placed as SQAQ at SQAE(EE), Kolkata w.e.f. 16 Mar 2005 (F/N).
2. Shri SK Gupta, JAG(NFSG), on deputation at CIRTES, Pusa, New Delhi to be placed as Joint Director at HQ DQA(L), New Delhi, w.e.f. 01 Apr 2005 (F/N).
3. Shri Vijay Kumar, JAG(NFSG), SQAE(GS), Mumbai to be placed as Addl Controller at CQA(GS), Kanpur w.e.f. 09 May 2005 (F/N).
4. Shri D Ray Chaudhury, PScO(NFSG), CQA(T&C), Kanpur to be placed as SQAQ at SQAE(GS), Mumbai w.e.f. 29 Apr 2005 (F/N).
5. Shri BK Das, Joint Controller, CQA(SV), Dehu Road to be placed as Controller at CQA(FFE), Pune w.e.f. 31 May 2005 (F/N).
6. Shri SK Chattopadhyay, Joint Controller, CQA(L), Bangalore to be placed as Controller at CQA(R), Bangalore w.e.f. 22 July 2005 (A/N).
7. Shri MK Khan, Joint Controller, CQA(L), Bangalore to be placed as Addl Director at HQ DQA(R&S), Secunderabad w.e.f. 28 Aug 2005 (F/N).
8. Shri Mitra Sen, JAG(NFSG), HQ DQA(L), New Delhi to be placed in-situ as Joint Director w.e.f. 25 Jul 2005 (F/N).
9. Shri KS Manjunatha, JAG(NFSG), CQA(L), Bangalore to be placed as Joint Controller at CQA(AVL), Avadi w.e.f. 30 Aug 2005 (F/N).
10. Shri SG Joshi, JAG(NFSG), HQ DQA(L), New Delhi to be placed as SQAQ at QAE(L), Medak w.e.f. 28 Jul 2005 (F/N).

11. Shri J Janardhan, JAG(NFSG), RDB, Pune, C/o CQA(A), Kirkee to be placed as Joint Controller at CQA(L), Bangalore w.e.f. 29 Aug 2005(F/N).
12. Shri KSN Murthy, JAG(NFSG), CQA(R), Bangalore to be placed in-situ as Joint Controller w.e.f. 30 Jun 2005(F/N).
13. Dr. AJS Arora, JAG(NFSG), SQAE(GS), Chennai to be placed as Addl Director at HQ DQA(S), New Delhi w.e.f. 18 Aug 2005(F/N).
14. Smt. Manju Dixit, JAG(NFSG), CQA(T&C), Kanpur to be placed as SQAO at SQAE(GS), Chennai w.e.f. 18 Aug 2005(F/N).
15. Shri Rama Yadav, JAG(NFSG), CQA(T&C), Kanpur to be placed in-situ as Joint Controller w.e.f. 29 Jun 2005(F/N).
16. Shri AK Sinha, JAG(NFSG), CQA(PP), Kanpur to be placed as Joint Controller at CQA(M), Kanpur w.e.f. 25 Jul 2005(F/N).
17. Shri YV Bailur, JAG(NFSG), CQA(M), Kanpur to be placed as Joint Director at HQ DQA(S), New Delhi, w.e.f. 04 Oct 2005(F/N).
18. Shri N Mukhopadhyay, Joint Director, DIQA, Bangalore to be placed in-situ as Addl Director w.e.f. 29 Jun 2005(F/N).
19. Shri Satinder Mohan, Joint Director HQ DQA(E), New Delhi to be placed in-situ as Addl Director w.e.f. 30 Jun 2005(F/N).
20. Shri D Chakram, Joint Controller, CQA(ICV), Medak to be placed as Addl Director at HQ DQA(CV), Avadi w.e.f. 17 Aug 2005(F/N).
21. Shri NC Gupta, JAG(NFSG), SQAE(V), Badarpur to be placed as Joint Director At HQ DQA(V), New Delhi w.e.f. 04 Jul 2005(F/N).
22. Shri P Chitnis, JAG(NFSG), CQA(V), Ahmednagar to be placed as Joint Director at HQ DQA(N), New Delhi w.e.f. 21 Jul 2005(F/N).
23. Shri N Gunasekharan, JAG(NFSG), CQA(EE), Pune to be placed as Joint Director at HQ DQA(E), New Delhi w.e.f. 01 Aug 2005(F/N).
24. Shri NM Kandaswamy, JAG(NFSG), CQA(HV), Avadi to be placed as Joint Controller at CQA(ICV), Medak w.e.f. 23 Sept 2005(F/N).
25. Shri KM Sharma, JAG(NFSG), HQ DQA(N), New Delhi to be placed as Joint Director at HQ DQA(WP), New Delhi w.e.f. 13 Jul 2005(F/N).

26. Shri AK Srivastava, JAG(NFSG), CQA(SV), Dehu Road to be placed in-situ as Joint Controller w.e.f. 29 Jul 2005(F/N).

SUBHASH CHAND
Under Secy.

ARMY BRANCH
CORRIGENDUM

No. 202, dated the 21st Mar 2006.—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Major

The date of Promotion in respect of MS-14237-H Major Pravardhan Rajashekar B Serial No. 09 of the Gazette Notification published on 10 Dec 2005 is amended as follows :—

'For' - With effect from 15-03-2005

'Read' - With effect from 15-09-2004

The date of Promotion in respect of MS-13462-L Maj Sajal Nag Serial No. 05 of the Gazette Notification published on 24 Apr 2004 is amended as follows :—

'For' - With effect from 20-02-2003

'Read' - With effect from 20-08-2002

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (Pers.)

No. 203, dated the 22nd Mar 2006.—

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to Maj" the following amendment is made :—

Against : IC-53394 IPB Vaidya Nathan, Sigs

For : 10 Dec 2004

Read : 01 Nov 2004

AJAY GOEL
Dy. Dir
MS-8C